



प्रेस विज्ञप्ति Press Release

हैदराबाद, 17 सितंबर 2025
Hyderabad, 17 September 2025

आईआरडीएआई के अध्यक्ष श्री अजय सेठ द्वारा बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन वेबसाइट का शुभारंभ

IRDAI Chairman Mr. Ajay Seth Launches Bima Sugam India Federation Website

बीमा के लिए भारत की सर्वप्रथम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण हेतु उद्योग का एक सामूहिक प्रयास

A collective industry effort to build India's first Digital Public Infrastructure for insurance



बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन (बीएसआईएफ) ने आज **श्री अजय सेठ, अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)** द्वारा अनावृत अपनी आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, वरिष्ठ आईआरडीएआई अधिकारियों, तथा बीमा सुगम नेतृत्व टीम की उपस्थिति में हैदराबाद स्थित अपने आईआरडीएआई मुख्यालय में होने की घोषणा की है।

यह शुभारंभ बीमा के लिए भारत की अग्रगामी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का निर्माण करने में सर्वप्रथम दृश्य चरण को चिह्नित करता है, जो “2047 तक सबके लिए बीमा” की राष्ट्रीय परिदृष्टि एवं प्रधान मंत्री जी के विकसित भारत 2047 के मिशन के साथ सुयोजित है।



इस अवसर पर अपना वक्तव्य देते हुए श्री अजय सेठ, आईआरडीएआई ने कहा है:

“बीमा सुगम बीमा के लिए भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को निरूपित करता है। यह पहल पालिसीधारकों को सशक्त बनाएगी, बीमा व्यापन को गहन बनाएगी, तथा समूची मूल्य-शृंखला में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करेगी। आज इस वेबसाइट का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, तथा मुझे विश्वास है कि उद्योग की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ, ‘2047 तक सबके लिए बीमा’ की परिदृष्टि – प्रधान मंत्री जी के 2047 तक विकसित भारत के मिशन के भाग के रूप में – एक वास्तविकता बनेगी।”

श्री राकेश जोशी, अध्यक्ष, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन (बीएसआईएफ) द्वारा दिया गया वक्तव्य:

“इस मिशन को साकार करने में आईआरडीएआई की परिदृष्टि, मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन के लिए मैं उनके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस वेबसाइट के साथ हम देश के लिए एक समावेशी, निर्बाध एवं प्रौद्योगिकी-चालित बीमा पारिस्थितिक तंत्र (ईकोसिस्टम) का निर्माण करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा रहे हैं।”

श्री प्रसून सिकंदर, एमडी और सीईओ, बीएसआईएफ ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा है:

“बीमा सुगम वेबसाइट जनता और उद्योग के लिए हमारा प्रामाणिक प्रवेश-द्वार है। यह ग्राहकों, बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को एक सामान्य मंच पर एकसाथ लाने के साथ ही, हमारी परिदृष्टि, अभिशासन और प्रगति के संबंध में स्पष्टता उपलब्ध कराता है। यह एक ऐसी यात्रा में सर्वप्रथम मील का पत्थर है जो प्रत्येक भारतीय घर-परिवार के लिए बीमा तक पहुँच और पारदर्शिता को रूपांतरित करेगी।”

उक्त प्लेटफार्म की विशेषताओं का रोलआउट सुरक्षा, अनुपालन और मापनीयता के उच्चतम स्तर सुनिश्चित करते हुए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण का अनुसरण करेगा। बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के अनुरूप, जैसे-जैसे बीमाकर्ता और पारिस्थितिक तंत्र के भागीदार आगामी महीनों में आवश्यक समन्वय पूरा करेंगे, बाजार-स्थान तत्काल (रियल) लेनदेनों के साथ प्रगामी रूप में अग्रसर होगा।

The Bima Sugam India Federation (BSIF) today announced the launch of its official website, unveiled by **Mr. Ajay Seth, Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)**, in the presence of industry CEOs, senior IRDAI officials, and the Bima Sugam leadership team at the IRDAI headquarters in Hyderabad.

The launch marks the first visible step in building **India's pioneering Digital Public Infrastructure (DPI) for insurance**, aligned with the national vision of *"Insurance for All by 2047"* and the Prime Minister's mission of *Viksit Bharat 2047*.



Commenting on the occasion, Mr. Ajay Seth, Chairman, IRDAI, said:

"Bima Sugam represents a critical step towards creating India's Digital Public Infrastructure for insurance. This initiative will empower policyholders, deepen insurance penetration, and ensure transparency and fairness across the value chain. The launch of the website today is an important milestone, and I am confident that with collective industry commitment, the vision of 'Insurance for All by 2047'—as part of the Prime Minister's mission of Viksit Bharat 2047—will become a reality."

Statement by Mr. Rakesh Joshi, Chairperson, Bima Sugam India Federation (BSIF):

"Our sincere gratitude goes to IRDAI for their vision, guidance, and continuous support in shaping this mission. With this website, we take the first visible step towards building an inclusive, seamless, and technology-driven insurance ecosystem for the country."

Sharing his views, Prasun Sikdar, MD & CEO, BSIF, said:

"The Bima Sugam website is our authentic gateway for the public and the industry. It provides clarity on our vision, governance, and progress, while bringing customers, insurers, and intermediaries together on a common platform. This is the first milestone in a journey that will transform insurance access and transparency for every Indian household."

The rollout of platform features will follow a phased approach, ensuring the highest levels of security, compliance, and scalability. In line with the Board-approved roadmap, the marketplace will progressively go live with real transactions as insurers and ecosystem partners complete necessary integrations over the coming months.